

ICL / CMPL / 2018-19 /112

Dated: 29<sup>th</sup> January, 2019

To,  
The General Manager  
Department of Corporate Affairs  
BSE Limited  
Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street,  
Mumbai – 400 001

**Scrip Code: 526871**

**Sub: Submission under Regulation 47 of SEBI (Listing obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015**


Dear Sir,

As per Clause 47 of the SEBI (Listing obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 please find enclosed Newspaper publication of Notice of Meeting of the Board of Directors of the Company to be held on Friday, 08<sup>th</sup> February, 2019 published in "The Financial Express" (English) and "Awam-E-Hind" (Hindi) on Tuesday, 29<sup>th</sup> January, 2019.

You are requested to kindly take the same on records.

Thanking You

For Intec Capital Limited

  
Puneet Sehgal  
Company Secretary  
(ACS-12557)

Encl: As above

**INTEC CAPITAL LTD.**

CIN: L74899DL1994PLC057410

Regd. Off: 708, Manjusha Building, 57 Nehru Place, New Delhi - 110019. T +91-11-4652 2200/300 F +91-11-4652 2333  
[www.inteccapital.com](http://www.inteccapital.com)

## INTERNATIONAL 17

## FINANCIAL EXPRESS

WEST BENGAL STATE ELECTRICITY  
DISTRIBUTION COMPANY LIMITED(A Govt. of West Bengal Enterprise)  
Regd. Office: Vidyut Bhawan, Block-D4, Sector-4, Bidhannagar, Kolkata - 700 091  
CIN: U40109WB1920PLC113473, secopmpt@gmail.com, www.wbsecl.in

## Request for Proposals

e-Tender cum e-Reverse Auction no. WBSEDL/PT&P/e-NIT/01(RPO)/2019 dated 29.01.2019 is invited by the Chief Engineer (PT&P), WBSEDL, Vidyut Bhawan, Bidhannagar, Kolkata - 700091, for purchase of power from renewable/co-generation sources (non solar) for meeting RPO from 10<sup>th</sup> February, 2019 to 30<sup>th</sup> March, 2019 and from 01<sup>st</sup> April to 31<sup>st</sup> October (i.e. Seven months) and from 1<sup>st</sup> April to 30<sup>th</sup> March every year for the Financial Years 2019-20 & 2020-21 through Traders/Licensees/Bidders. Interested parties may download the tender documents from the website <https://www.mstecommerce.com> directly with the help of Digital Signature Certificate from 11:00 hrs. of 29.01.2019 and submit the same on or before 17:00 hrs. of 04.02.2019. Details will be available on the Company's website: [www.wbsecl.in](http://www.wbsecl.in) ICA-18334/2019

## Quick Heal

Security Simplified

## QUICK HEAL TECHNOLOGIES LIMITED

CIN - L72200MH1995PLC091408

Regd office: Marvel Edge, Office No.7010, C & D, 7th Floor, Vimannagar, Pune 411014, Maharashtra, India; Phone: +91 20 66813232;  
Website: [www.quickheal.com](http://www.quickheal.com); Email: [cs@quickheal.co.in](mailto:cs@quickheal.co.in)

## NOTICE

Pursuant to Regulation 29 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and other applicable provisions, NOTICE IS HEREBY GIVEN that a Meeting of the Board of Directors of the Company shall be held on Wednesday, 13<sup>th</sup> February, 2019 at 03:30 PM at Marvel Edge, 7010 C & D, 7<sup>th</sup> Floor, Vimannagar, Pune, Maharashtra - 411 014 to consider and approve the Unaudited Standalone Financial Results of the Company for the quarter and nine months ended 31<sup>st</sup> December, 2018.

The outcome of the above meeting will be available on the website of the BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited viz. [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com), respectively.

For Quick Heal Technologies Limited

sd/-

Place : Pune Kailash Katkar (DIN: 00397191)

Managing Director &amp; CEO

Date : 29<sup>th</sup> January, 2019

29 of Securities and Disclosure Requirements) of Directors of Ingersoll  
uary 8, 2019, inter alia,  
s of the Company for the  
2018.

RAND (INDIA) LIMITED  
P. R. SHUBHAKAR  
and Company Secretary

Securities and Exchange Board  
ions, 2015, is hereby given that  
to be held on Tuesday, February  
al Results (both standalone and  
the Financial Year 2018-19.

BSE Limited and National Stock  
.com and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com)

Reliance Infrastructure Limited  
Srilatha T G  
Dy. Company Secretary

RELIANCE  
Infrastructure

Accepted Appendix B "Foreign Currency Transactions and Advance Consideration" of Ind AS 21 "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates" using the cumulative catch-up transition method which is applied to Non-monetary assets or Non-current consideration and outstanding on the beginning of the reporting period. Accordingly, the comparatives The effect on adoption of Appendix B: "Foreign Currency Transactions and Advance Consideration" was

Global Limited (Standalone) :-

	Quarter Ended		Nine Months Ended
	31.12.2018 (Unaudited)	31.12.2017 (Unaudited)	31.12.2018 (Unaudited)
12,843.34	13,442.12	35,962.96	
908.00	1,153.39	2,842.08	
745.64	1,058.34	2,332.45	
1,637.56	1,049.57	2,128.40	

segment viz. manufacturing, sourcing and sales of Fashion Jewelry & Life Style Products. Hence no'lished.

of Quarterly Financial Results filed with stock exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results is available on the stock exchange [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and on the Company's website [www.vaibhavglobal.com](http://www.vaibhavglobal.com).

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-

Sunil Agrawal

Chairman & Managing Director  
DIN : 00061142

New Delhi



Sapne Aapke, Bharosa Apno ka

CIN: L74899DL1994PLC057410

Regd. Off. 708, Manjusha, 57 Nehru Place, New Delhi - 110 019

T: +91-11-4652200/300; F: +91-11-46522333

Website: [www.inteccapital.com](http://www.inteccapital.com)

## NOTICE

Notice is hereby given, pursuant to Regulation 29(1)(a), 29(2), 47(1) read with Regulation 33 and other applicable Regulation of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that a Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Friday, 08th February, 2019 to consider, approve, adopt and taken on record the Unaudited Financial Results, Limited Audited Review Report by Statutory Auditors for third quarter/ nine months ended 31st December, 2018 in terms of regulation 33 and other applicable of regulation of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015 (hereinafter referred to as SEBI LODR 2015).

Further, notice is hereby given that in terms of SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulation, 2015 read with Company's clause 7 of "Code of Conduct for Regulating Monitoring and Reporting of Trading by Insiders pursuant to regulation 9 of SEBI (Prohibition of Insider Trading), Regulation 2015 herein referred to as "Insider Trading Code", the "Trading Window" in respect of dealing in Equity Shares of the Company shall remain closed from opening hours of Wednesday, 30th January, 2019 to closing hours of Tuesday, 12th February, 2019 (both days inclusive). The Trading Window in respect of dealing in equity shares of the Company shall re-open from Wednesday 13th February, 2019.

The intimation contained in this notice is also available on the Company website [www.inteccapital.com](http://www.inteccapital.com) and on the website of BSE Limited-[www.bseindia.com](http://www.bseindia.com).

For Intec Capital Limited  
Sd/-  
Puneet Sehgal  
Company Secretary  
M. No: ACS-12557

## CORPORATE MERCHANT BANKERS LIMITED

CIN: L74899DL1994PLC061107

Registered Office : UG-24, Vishwadeep Tower, District Centre, Janak Puri, West Delhi-110058

Standalone unaudited Financial Results for the quarter ended December 31, 2018

(Rs. in Lakhs)

Sl No.	Particulars	Quarter Ended	Year to date	Corresponding 3 months Ended
		31.12.2018	31.12.2018	31.12.2017
1	Total Income from operations (net)	2.22	10.34	6.55
2	Net Profit / (Loss) for the period before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items	0.18	0.92	0.79
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	0.18	0.92	0.79
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	0.13	0.64	0.55
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	0.13	0.64	0.55
6	Equity Share Capital	330.00	330.00	330.00
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	-
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)	-	0.02	0.02
	(a) Basic	-	0.02	0.02
	(b) Diluted	-	0.02	0.02

Note : The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange Website ([www.msei.in](http://www.msei.in)) & ([www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)) and Company's website ([www.cmbi.co.in](http://www.cmbi.co.in)).

For CORPORATE MERCHANT BANKERS LIMITED

Sd/-

Pame Venkateshwar Reddy

Director

DIN: 06446233

Date : 28.01.2019  
Place : Delhi

New Delhi

